



वन उत्पादकता संस्थान, रांची



स्वतन्त्रता दिवस समारोह

वन उत्पादकता संस्थान, रांची में 74वें स्वतन्त्रता दिवस समारोह का आयोजन हर्षोल्लास के साथ किया गया। संस्थान के निदेशक डॉ॰ नितिन कुलकर्णी के द्वारा पूर्वाह्न 9.00 बजे संस्थान के प्रांगण में हर्षोल्लास के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इस अवसर पर संस्थान के सभी केन्द्रों (Environmental Research Station Sukna, Forest Research & Extension Centre, Patna, Forest Research Center, Mandar, N. B. Farm, Chandwa) में भी स्वतन्त्रता दिवस समारोह आयोजित किया गया एवं राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया।

संस्थान के निदेशक महोदय ने अपने उद्बोधन में देश की आजादी से लेकर देश की वर्तमान उन्नति पर विस्तार से प्रकाश डाला। भारत वर्ष को स्वतंत्र कराने के लिए कितने महान पुरुषों ने अपनी कुर्बानी दी, इस पर भी चर्चा की। इस अवसर पर वर्तमान में वैश्विक महामारी COVID-19 के बारे में चर्चा तथा तत्काल में इस वैश्विक महामारी COVID-19 से कैसे सुरक्षित रहें पर अपना विचार से अवगत कराया गया।

इस अवसर पर आजादी से जुड़े वीर स्वतन्त्रता सेनानियों एवं सीमा पर रक्षा करने वाले बहादुर सेनाओं को भी नमन किया क्योंकि वे अपनी जान को जोखिम में डालकर हमारी एवं देश की निरंतर रक्षा करते हैं। साथ ही साथ गलवांग घाटी घटना एवं शहीद हुये सेनाओं को विशेष रूप से याद करते हुए नमन किया गया।

संस्थान के निदेशक ने वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन से हो रहे समस्याओं एवं वानिकी द्वारा निदान किया जा सकता है, पर भी अपना विचार रखा। अपने उद्बोधन में वानिकी के क्षेत्र में भी क्रांति लाने की आवश्यकता है जो अनुसंधान के द्वारा ही संभव है तथा इस अनुसंधान के परिणामों को क्षेत्रों में लाए जाने की आवश्यकता है।

अपने सम्बोधन में संस्थान के सभी वरिष्ठ वैज्ञानिकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कहा की पर्यावरण एवं प्रकृति को सुरक्षित रखने के लिए आम लोगों एवं विद्यार्थियों में जागरूकता लाने की आवश्यकता है।

संस्थान के निदेशक ने अपने सम्बोधन में निकट भविष्य में विभिन्न क्षेत्रों में वैज्ञानिकों के द्वारा की गयी प्रगति पर भी चर्चा की। पर्यावरण एवं प्रकृति की सुरक्षा के लिए संस्थान द्वारा विभिन्न विद्यालयों, कालेजों के विद्यार्थियों को जागरूक रखने के लिए संस्थान द्वारा विभिन्न कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है इस पर भी अपना वक्तव्य दिया।

इस अवसर पर भारत सरकार द्वारा MHA, COVID – 19 के लिए निर्देशित नियमों का अनुपालन किया गया।





वन उत्पादकता संस्थान, रांची में मनाए गये स्वतन्त्रता दिवस समारोह की झलक